

Num

Chapter 25

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

מֹאָב׃	בָּנוֹת	אֶל-	לְזָנוֹת	הָעַם	וַיַּחַל	בְּשָׂטִים	יִשְׂרָאֵל	וַיָּשָׁב	1
मोआब-की	बेटियों	की-और	व्यभिचार-करने	जाति-ने	और-शुरू-किया	शित्तीम-में	इसाएल	और-ठहरा	
H4124	H1323	H0413	H2181			H7851	H3478	H3427	

इसाएल के लोग अभी तक शित्तीम के क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। उस समय लोग मोआबी स्त्रियों के साथ यौन सम्बन्धी पाप करने लगे।

וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ	הָעַם	וַיֵּאָכֵל	אֱלֹהֵיהֶן	לְזָבָחִי	לְעַם	וַתִּקְרָא	2
और-दण्डवत-किया	जाति-ने	और-खाया	देवताओं-उनकी-के	बलिदानों-के-लिए	जाति-को	और-बुलाया	
H7812		H0398	H0430	H2077		H7121	

לְאֱלֹהֵיהֶן׃
देवताओं-उनकी-को
[H0430](#)

मोआबी स्त्रियों ने पुरुषों को आने और अपने मिथ्या देवताओं को भेंट चढ़ाने में सहायता करने के लिए आमन्त्रित किया। इसाएली लोगों ने वहाँ भोजन किया और मिथ्या देवताओं की पूजा की।

וַיִּצְמַד	יִשְׂרָאֵל	פְּעֹר־לְבַעַל	וַיַּחַר-	אֶת-	יְהוָה	בְּיִשְׂרָאֵל׃	3
और-जुड़-गया	इसाएल	बाल-पोर-से	और-भड़का	को	यहोवा-का	इसाएल-पर	
H6775	H3478	H1187	H2734	H0639	H3068	H3478	

अतः इसाएल के लोगों ने इसी प्रकार मिथ्या देवता पोर के बाल की पूजा आरम्भ की। यहोवा इन लोगों पर बहुत क्रोधित हुआ।

וַיֵּאמֶר	יְהוָה	אֶל-	מֹשֶׁה	קַח	אֶת-	כָּל-	רָאשֵׁי	הָעַם	וַהֲקִיעַ	אוֹתָם	4
और-कहा	यहोवा-ने	से	मूसा	ले	को	सब	मुखियाओं-को	जाति-के	और-लटका	उन्हें	
H0559	H3068	H0413	H4872	H3947	H0853	H3605		H3363	H0853		

לְיְהוָה	נָגַד	הַשָּׁמֶשׁ	וַיִּשָּׁב	קָרוֹן	אֶת-	יְהוָה	מִיִּשְׂרָאֵל׃
यहोवा-के-लिए	सामने	सूर्य-के	और-लौटेगा	तीव्रता	क्रोध-की	यहोवा-की	इसाएल-से
H3068	H5048	H8121	H7725	H2740	H0639	H3068	H3478

यहोवा ने मूसा से कहा, "इन लोगों के नेताओं को लाओ। तब उन्हें सभी लोगों की आँखों के सामने मार डालो। उनके शरीर को यहोवा के सामने डालो। तब यहोवा इसाएल के लोगों पर क्रोधित नहीं होगा।"

וַיֵּאמֶר	מֹשֶׁה	אֶל-	שָׂפְטֵי	יִשְׂרָאֵל	הַרְגוּ	אִישׁ	אֶנְשֵׁי	הַנְּצַמְדִים	פְּעֹר־לְבַעַל	5
और-कहा	मूसा-ने	से	न्यायियों	इसाएल-के	मारो	प्रत्येक	लोगों-अपने-को	जुड़े-हुओं-को	बाल-पोर-से	
H0559	H4872	H0413	H8199	H3478	H2026	H0376	H0376	H6775	H1187	

इसलिए मूसा ने इसाएल के न्यायाधीशों से कहा "तुम लोगों में से हर एक को अपने परिवार समूह में उन लोगों को ढूँढ निकालना है जिन्होंने लोगों को पोर के मिथ्या देवता बाल की पूजा के लिए प्रेरित किया है। तब तुम्हें उन लोगों को अवश्य मार डालना चाहिए।"

וַהֲגִידָה	אִישׁ	מִבְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	בָּא	וַיִּקְרַב	אֶל-	אֶת-	הַמְדִינִית	6
और-देखी	पुरुष	पुत्रों-से	इसाएल-के	आया	और-लाया	पास	को	मिद्यानी-स्त्री	
H2009	H0376		H3478	H0935	H7126	H0413	H0853	H4084	

לְעֵינָי	מֹשֶׁה	וְלְעֵינָי	כָּל-	עַדְת	בְּנֵי-	יִשְׂרָאֵל	וַהֲמָה	בְּכֵי	פֶתַח
आँखों-के-सामने	मूसा-की	और-आँखों-के-सामने	सब	मण्डली-की	पुत्रों-के	इसाएल-के	और-वे	रो-रहे-थे	द्वार-पर
	H4872		H3605	H5712		H3478	H1992	H1058	H6607

מֹשֶׁה וְלְעֵינָי׃
मिलाप-के तबू-के
[H4150](#) [H0168](#)

उस समय मूसा और सभी इस्राएल के अग्रज (नेता) मिलापवाले तम्बू के द्वार पर एक साथ इकट्ठे थे। एक इस्राएली व्यक्ति एक मिद्यानी स्त्री को अपने भाईयों के पास अपने घर लाया। उसने यह वहाँ किया जहाँ उसे मूसा और सारे नेता देख सकते थे। मूसा और नेता बहुत दुःखी हुए।

7
 הַעֲדָה הַמִּדְיָנִית וְיִשְׂרָאֵל וְיִשְׂרָאֵל וְיִשְׂרָאֵל וְיִשְׂרָאֵל וְיִשְׂרָאֵל וְיִשְׂרָאֵל וְיִשְׂרָאֵל
 मण्डली-के बीच-से और-उठा याजक-के हारून-के पुत्र एलआज़ार-के पुत्र पीनहास-ने और-देखा
[H5712](#) [H8432](#) [H3548](#) [H0175](#) [H0499](#) [H6372](#) [H7200](#)

וַיִּקַּח וַיָּבֵא
 हाथ-अपने-में भाला और-लिया
[H3027](#) [H7420](#) [H3947](#)

याजक हारून के पोते तथा एलीआज़ार के पुत्र पीनहास ने इसे देखा। इसलिए उसने बैठक छोड़ी और अपना भाला उठाया।

8
 אִישׁ אֶת שְׁנֵיהֶם אֶת-וַיִּדְקֶרֶת הַקִּבְּהָ אֶל-יִשְׂרָאֵל אִישׁ-אֶחָד וַיָּבֵא
 पुरुष-को को दोनों-को को और-भोंका कुटिया-के पास इस्राएली पुरुष-के पीछे और-गया
[H0376](#) [H0853](#) [H8147](#) [H0853](#) [H1856](#) [H6898](#) [H0413](#) [H3478](#) [H0376](#) [H0935](#)

וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל
 इस्राएल-के पुत्रों-के से-ऊपर महामारी और-रुक-गई पेट-उसके पास स्त्री-को और इस्राएली
[H3478](#) [H4046](#) [H6113](#) [H6897](#) [H0413](#) [H0802](#) [H0853](#) [H3478](#)

वह इस्राएली व्यक्ति के पीछे—पीछे उसके खेमे में गया। तब उसने इस्राएली पुरुष और मिद्यानी स्त्री को अपने भाले से मार डाला। उसने अपने भाले को दोनों के शरीरों के पार कर दिया। उस समय इस्राएल के लोगों में एक बड़ी बीमारी फैली थी। किन्तु जब पीनहास ने इन दोनों लोगों को मार डाला तो बीमारी रूक गई।

9
 וַיָּהִיוּ וַיָּהִיוּ וַיָּהִיוּ וַיָּהִיוּ וַיָּהִיוּ וַיָּהִיוּ וַיָּהִיוּ
 और-थे और-थे और-थे और-थे और-थे और-थे और-थे
[H1961](#) [H4191](#) [H4046](#) [H0702](#) [H6242](#) [H0505](#)

इस बीमारी से चौबीस हजार लोग मर चुके थे।

10
 וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר וַיִּדְבֹר
 और-कहा और-कहा और-कहा और-कहा और-कहा
[H1696](#) [H3068](#) [H0413](#) [H4872](#) [H0559](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

11
 פִּינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר בֶּן-אֶתְרֵל בֶּן-אֶתְרֵל בֶּן-אֶתְרֵל
 पीनहास पुत्र एलआज़ार-के पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र
[H6372](#) [H0499](#) [H0175](#) [H3548](#) [H7725](#) [H0853](#) [H2534](#)

וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל וַיִּשְׂרָאֵל
 इस्राएल-के पुत्रों-के को को मिटाया-मैंने और-नहीं उनके-बीच जलन-मेरी को जलन-करके-उसने इस्राएल-के
[H3478](#) [H0853](#) [H3615](#) [H3808](#) [H8432](#) [H7068](#) [H0853](#) [H7065](#) [H3478](#)

בְּקִנְאָתִי :
 जलन-मेरी-में
[H7068](#)

“याजक हारून के पोते तथा एलीआज़ार के पुत्र पीनहास ने इस्राएल लोगों को मेरे क्रोध से बचा लिया है। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कठिन प्रयत्न किया। वह वैसा ही है जैसा मैं हूँ। उसने मेरी प्रतिष्ठा को लोगों में सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया। इसलिए मैं लोगों को वैसे ही नहीं मारूँगा जैसे मैं मारना चाहता था।

12
 לָבוֹן אָמַר הִנְנִי נָתַן לוֹ אֶת-בְּרִיתִי שְׁלוֹמִים
 इसलिए कह देखो-मैं दे-रहा-हूँ उसे को मेरी-शांति
[H0559](#) [H2009](#) [H5414](#) [H0853](#) [H1285](#) [H7965](#)

इसलिए पीनहास से कहो कि मैं उसके साथ एक शान्ति की वाचा करना चाहता हूँ।

13 וְהָיְתָה לּוֹ וּלְזַרְעוֹ וְאֶחָיוּ בְרִית כְּהֹנֵת עוֹלָם יָצָח אֲשֶׁר קָנָא
 और-होगी उसे और-वंश-उसके और-उसके बाद-उसके वाचा याजक-पद सदा-की इसलिये कि जला
[H1961](#) [H2233](#) [H1285](#) [H3550](#) [H5769](#) [H8478](#) [H7065](#)

וְאֶלֶּהֵינוּ וְנוֹכַחַר עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:
 परमेश्वर-अपने-के-लिए और-प्रायश्चित-किया पर और-के-पुत्रों-के इस्राएल-के
[H0430](#) [H3478](#)

वह और उसके बाद के वंशज मेरे साथ एक वाचा करेंगे। वे सदा याजक रहेंगे क्योंकि उसने अपने परमेश्वर की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कठिन प्रयत्न किया। इस प्रकार उसने इस्राएली लोगों के दोषों के लिए हर्जाना दिया।”

14 וְשֵׁם אִישׁ יִשְׂרָאֵל הַמָּזְכָּה אֲשֶׁר הָכָה אֶת-הַמְדִּינִית זְמָרִי בֶן-סָלוּא
 और-नाम पुरुष-का इस्राएली मारे-गए-का जो मारा-गया के-साथ के-मिद्यानी-स्त्री मिद्यानी-स्त्री जिम्मी पुत्र सालू-के
[H8034](#) [H0376](#) [H3478](#) [H5221](#) [H5221](#) [H221](#) [H0854](#) [H4084](#)

נְשִׂיא בֵּית-אָב לְשִׁמְעוֹנִי:
 प्रधान के-घराने-के पिता-के-लिए शिमोनी-के-लिए
[H0001](#) [H8099](#)

जो इस्राएली मिद्यानी स्त्री के साथ मारा गया था उसका नाम जिम्मी था वह साल का पुत्र था। वह शिमोन के परिवार समूह के परिवार का नेता था

15 וְשֵׁם הָאִשָּׁה הַמָּרִי-גַּ' הַמְדִּינִית קִזְבִּי בַת-צֹר רָאשׁ אֲמוֹת אָב
 और-नाम स्त्री-का मारी-गई-का मारि-गई-का मिद्यानी-स्त्री काजबी काजबी बेटी सूर-की मुखिया कुलों-के घराने-के पिता-के
[H8034](#) [H0802](#) [H5221](#) [H4084](#) [H3579](#) [H1323](#) [H6698](#) [H0523](#) [H0001](#)

בְּמִדְּוָן הָוָא:
 मिद्यान-में वह
[H1931](#) [H4080](#)

और मारी गई मिद्यानी स्त्री का नाम कोजबी था। 15 वह सूर की पुत्री थी। वह अपने परिवार का मुखिया था और वह मिद्यानी परिवार समूह का नेता था।

16 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
 और-कहा और-ने यहोवा-से मुसा कहते-हुए
[H1696](#) [H3068](#) [H0413](#) [H4872](#) [H0559](#)

यहोवा ने मुसा से कहा,

17 צָרוּר אֶת-הַמְדִּינִים וְהַכִּיתֶם אוֹתָם:
 सता को मिद्यानियों और-मारो उन्हें
[H0853](#) [H5221](#) [H4084](#) [H0853](#)

“मिद्यानी लोग तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें उनके मार डालना चाहिए।

18 כִּי צָרִים הֵם-וְעַל-זָרָה-בְּנִלְיָהֶם לָכֵן בְּנִלְיָהֶם אֲשֶׁר-נָכְלוּ לָכֵם עַל-דְּבַר-פְּעוֹר
 क्योंकि तंग-करने-वाले हैं-वे तुम्हें लक्ष्मण-अपनी-से लक्ष्मण तुम्हें पर बात पर लक्ष्मण-की-बात पर-की-बात
[H1697](#) [H1992](#) [H5231](#) [H5230](#) [H1697](#) [H1197](#) [H6465](#)

וְעַל-דְּבַר-בְּנֵי-בֵּית-נְשִׂיא מְדִינָה אֲחֹתָם הַמָּרִי-גַּ' הַמְדִּינִית הַמְנַגְּפָה
 और-पर बात काजबी के-घराने-के मिद्यान-के प्रधान-की बेटी काजबी के-महामारी-के दिन-में मारी-गई-का बहन-उनकी मिद्यान-के प्रधान-की बेटी काजबी के-महामारी-के दिन-में
[H1697](#) [H3579](#) [H1323](#) [H4080](#) [H0269](#) [H5221](#) [H3117](#) [H4046](#)

דְּבַר-פְּעוֹר:
 बात पर-की
[H1697](#) [H6465](#)

उन्होंने पहले ही तुमको अपना शत्रु बना लिया है। उन्होंने तुमको धोखा दिया और तुमसे अपने मिथ्या देवताओं की पोर में पूजा करवाई और उन्होंने तुममें से एक व्यक्ति का विवाह कोजबी के साथ लगभग करा दिया जो मिद्यानी नेता की पुत्री थी। यही स्त्री उस समय मारी गयी जब इस्राएली लोगों में बीमारी आई। बीमारी इसलिए उत्पन्न की गई कि लोग पोर में मिथ्या देवता बाल की पूजा कर रहे थे।”